



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
(EXTRAORDINARY)

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 74]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 20, 1981/फाल्गुन 1, 1902

No. 74]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 20, 1981/PHALGUNA 1, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

ed

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त संचालय

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 1981

आय-कर

का. आ. 118 (अ)—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (तीसरा संशोधन) नियम, 1981 है।

2. आय कर नियम, 1962 में,—

(क) नियम, 2-क में,—

(1) खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(ग) कोई ऐसी रकम जो,—

(1) जहां ऐसी निवास की जगह निम्नलिखित स्थानों में से किसी एक स्थान पर अवस्थित है, अर्थात् :—

आगरा, अहमदाबाद, इलाहाबाद, अमृतसर,
बंगलौर, भोपाल, कलकत्ता, कोयम्बतूर,

दिल्ली, फरीदाबाद, ग्वालियर (लक्ष्कर), हैदराबाद, इन्दौर, जबलपुर, जयपुर, कानपुर, लखनऊ, लुधियाना शहर, मदुरै, नागपुर, पटना, पुणे, श्रीनगर, सूरत, बडोदरा (बडौदा) या वाराणसी (बनारस) या ऐसे स्थानों में से प्रत्येक की नगर-बस्ती ; या

(2) जहां ऐसी जगह मुम्बई, कालीकट, कोचीन, गाजियाबाद, हुबली, धारवाड़, मद्रास, शोलापुर, त्रिवेन्द्रम या विशाखापत्तनम् में स्थित है, वहां निर्धारित की सुसंगत अवधि की बाबत देय वेतन के पंचमांश के बराबर है; और

(3) जहां ऐसी निवास की जगह किसी अन्य स्थान पर स्थित है वहां निर्धारित की सुसंगत अवधि की बाबत देय वेतन के दशमांश के बराबर है; या” ;

(4) स्पष्टकरण के खण्ड (2) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(3) नियम 2क के खण्ड (ग) के उपखण्ड (1) में किसी स्थान के संबंध में “नगर-बस्ती से यह क्षेत्र अभिप्रेत है जिसे केन्द्रीय सरकार ने अपने कर्मचारियों को, उसके द्वारा इस निम्नत समय समय पर जारी किए गए आवेदों के अधीन मकान किराया भत्ता मंजूर करने के प्रयोजन के लिए उस समय ऐसे स्थान को नगर-बस्ती में सम्मिलित किया है।” ;

(क) नियम 11-ख में,—

(1) स्थानों की सूची के स्थान पर निम्नलिखित सूची रखी जाएगी, अर्थात् :—

“(1) आगरा, अहमदाबाद, इलाहाबाद, अमृतसर, बंगलूर, भोपाल, कलकत्ता, कोयंबटूर, दिल्ली, फरीदाबाद, ग्वालियर (लश्कर), हैदराबाद, इन्दौर, जबलपुर, जयपुर, कानपुर, लखनऊ, लुधियाना शहर, मद्रुरै, नागपुर, पटना, पुणे, श्रीनगर, सुरत, बड़ोदरा, (बड़ोदा) या वाराणसी (बनारस) या ऐसे स्थानों में से प्रत्येक की नगर-बस्ती ; या

(2) मुम्बई, कालीकट, कोचीन, गाजियाबाद, हुबली धारवाड़, मद्रास, शोलापुर, त्रिवेन्द्रम या विशाखापत्तनम्” ;

(2) निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“स्पष्टीकरण : इस नियम में निर्दिष्ट किसी स्थान के सम्बन्ध में, “नगर-बस्ती” से वह क्षेत्र अभिप्रेत है जिसे केन्द्रीय सरकार ने अपने कर्मचारियों को, उसके द्वारा इस निमित्त समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अधीन मकान किराया भत्ता मंजूर करने के प्रयोजन के लिए उस समय ऐसे स्थान को नगर-बस्ती में सम्मिलित किया है ।”

[सं 3847/फा. सं. 142/(11)/79-टी पी एल]
एस. एन. शेन्डे, सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Central Board of Direct Taxes)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th February, 1981

INCOME-TAX

S.O. 118(E).—In exercise of the powers conferred by section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely :—

1. These rules may be called the Income-tax (Third Amendment) Rules, 1981.

2. In the Income-tax Rules, 1962,—

(a) in rule 2A,—

(i) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely :—

“(c) an amount equal to —

(i) where such accommodation is situate in any one of the following places, namely :—

Agra, Ahmedabad, Allahabad, Amritsar, Bangalore, Bhopal, Calcutta, Coimbatore, Delhi, Faridabad, Gwalior (Lashkar), Hyderabad, Indore, Jabalpur, Jaipur, Kanpur, Lucknow, Ludhiana City, Madurai, Nagpur, Patna, Poona, Srinagar, Surat, Vadodara (Baroda) or Varanasi (Banaras) or the urban agglomeration of each of such places ;

(ii) where such accommodation is situate at Bombay, Calicut, Cochin, Ghaziabad, Hubli-Dharwar, Madras, Sholapur, Trivandrum or Vishakhapatnam,

one-fifth of the amount of salary due to the assessee in respect of the relevant period ; and

(iii) where such residential accommodation is situate at any other place, one-tenth of the amount of salary due to the assessee in respect of the relevant period ; or

(ii) in the Explanation, after (ii), the following clause shall be inserted namely :—

(iii) “urban agglomeration”, in relation to a place in sub-clause (i) of clause (c) of rule 2A ; means the area for the time being included in the urban agglomeration of such place for the purpose of grant of house rent allowance by the Central Government to its employees under the orders issued by it from time to time in this regard ;

(b) in rule 11B,—

(i) for the list of places, the following list shall be substituted, namely :—

“(i) Agra, Ahmedabad, Allahabad, Amritsar, Bangalore, Bhopal, Calcutta, Coimbatore, Delhi, Faridabad, Gwalior, (Lashkar), Hyderabad, Indore, Jabalpur, Jaipur, Kanpur, Lucknow, Ludhiana City, Madurai, Nagpur, Patna, Poona, Srinagar, Surat, Vadodara (Baroda) or Varanasi (Banaras) or the urban agglomeration of each of such places, or

(ii) Bombay, Calicut, Cochin, Ghaziabad, Hubli-Dharwar, Madras, Sholapur, Trivandrum, or Vishakhapatnam.” ;

(ii) the following Explanation shall be inserted, namely :—

“Explanation.—“Urban agglomeration”, in relation to a place referred in this rule, means the area for the time being included in the urban agglomeration of such place for the purpose of grant of house rent allowance by the Central Government to its employees under the orders issued by it from time to time in this regard’.

[No. 3874/F. No. 142(11)/79-TPL]
S. N. SHENDE, Secy.